



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 श्रावण 1931 (श0)
(सं0 पटना 407) पटना, सोमवार, 10 अगस्त 2009

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

3 अगस्त 2009

सं0 प्र02वि01-33/2008-3050—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की संख्या की धारा-(9) एवं (10) एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा-(7) एवं (8) में यथा विनिर्दिष्ट तथा बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 के नियम (3) एवं (4) में अंकित शर्तों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने अंकित कालम (3) में उल्लिखित जिला के जिला उपभोक्ता फोरम में योगदान की तिथि से 5 (पाँच) वर्षों अथवा 65 (पैसठ) वर्ष की उम्र सीमा जो भी पहले हो, पूर्णकालिक सदस्य/सदस्या नियुक्त किया जाता है। इन्हें रू0 7500 (सात हजार पाँच सौ) तथा रू0 400 (चार सौ) परिवहन भत्ता मासिक मानदेय भुगतेय होगा—

पुरुष सदस्य

क्र0	पुरुष सदस्य	जिला उपभोक्ता फोरम का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	श्री कलीमुद्दीन अन्सारी	अररिया	
2	श्री बिमल कुमार सिन्हा	नालन्दा, बिहारशरीफ	
3	श्री आशुतोष ठाकुर	मधुबनी	
4	श्री विनय कुमार	लखीसराय	
5	श्री सत्यनारायण यादव	सुपौल	

महिला सदस्य

क्र०	महिला सदस्य	जिला उपभोक्ता फोरम का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	श्रीमती स्मिता	अररिया	
2	श्रीमती गीता कुमारी	गया	
3	श्रीमती उषा प्रसाद	नालन्दा, बिहारशरीफ	
4	श्रीमती रेणु नायक	पटना	
5	डा० भारती	मधुबनी	
6	मधुमिता कुमारी	लखीसराय	
7	श्रीमती शक्तिप्रभा सिन्हा	सारण, छपरा	
8	डा० संयुक्ता जायसवाल	सुपौल	

2. अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर योगदान नहीं करने पर अधिसूचना विलोपित समझा जाएगा एवं निर्धारित अवधि के बाद योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. संबंधित व्यक्ति अपना योगदान संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी/अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम को जन्म तिथि प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति के साथ देगे। जन्म तिथि संबंधी प्रमाण-पत्र के अभाव में योगदान स्वीकृत नहीं की जाएगी। योगदान की एक प्रति निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को भी समर्पित करेंगे।

4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि नियुक्त सदस्य उपभोक्ता संरक्षण नियमावली के नियम (4) में उल्लिखित प्रावधान के प्रक्षेत्र में आते हैं या नहीं। इस आशय का प्रमाण-पत्र आवश्यकतानुसार ले लेने के पश्चात ही योगदान स्वीकृत करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
त्रिपुरारि शरण,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 407-571+20-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>